



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2—जुलाई 8, 2005 (आषाढ़ 11, 1927)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2—JULY 8, 2005 (ASADHA 11, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2005

सं. यू. 16/53(1)/2002-चि/2/भाग II/गोवा—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. पी. बी. उसगांवकर, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानको के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 17.5.2005 से 16.5.2006 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त (पश्चिमी जोन), मुंबई द्वारा निर्धारित गोवा के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 8 जून 2005
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 ए. सी. ए. (8)/2/2003-2004:—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 198 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्र. संख्या	सदस्यता	नाम एवं पता	पुनःस्थापन तारीख
1	2	3	4
1.	003017	श्री बंसल राम नाथ, एफसीए 9, बिरला फ्लैट, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	31/03/2003
2.	003176	श्री मलिक अर्जुन देव, एसीए ए-22, एन.डी.एस.ई., पार्ट-2, नई दिल्ली-110049	18/08/2003
3.	003326	श्री खन्ना पृथ्वी राज, एफसीए 70 सुन्दर नगर, नई दिल्ली-110003	08/08/2003
4.	005947	श्री बजाज गोपाल कृष्ण, एसीए एफ-18 डी, साकेत, नई दिल्ली-110017	01/04/2003
5.	008620	श्री माथुर विजय नारायण, एफसीए बी-11/11, डीएलएफ सिटी, फेस-1, गुडगांव-122001	01/07/2003
6.	009966	श्री जिन्दल ओम प्रकाश, एफसीए ए-1/39, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110003	01/02/2004
7.	011809	श्री नंद नित्या, एफसीए सुषेता भवन, द्वितीय तल, 11-ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110003	05/06/2003
8.	017790	श्री जैन प्रदीप कुमार, एफसीए 21 समाचार अपार्टमेन्ट्स, मयूर विहार, फेस-1 एक्स, दिल्ली-110091	17/06/2003
9.	050012	श्री कन्हैया सिंह, एसीए नेशनल इन्वोरोन्स क. लि., मैनेजर, चण्डीगढ़ रोड-2, एससीओ 337-340, सेक्टर 35बी, चण्डीगढ़-160035	01/04/2003
10.	052831	श्री सिपानी जेठ मल, एफसीए पीटी इन्डोरमा सिन्थेटिक टीबीके, केमबंग कनिंग उबरह, जेतीलहर, पूरवाकरता-0, इन्डोनेशिया	30/01/2004

1	2	3	4
11.	070259	श्री कपूर अशोक कुमार, एफसीए एम-102 ग्रेटर कैलाश पार्ट-2, नई दिल्ली-110048	03/03/2003
12.	072068	श्री भुवालका सीताराम, एफसीए 402 नई दिल्ली हाऊस, 27 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001	01/05/2002
13.	075485	श्री बंसल पुष्पेन्द्र कुमार, एसीए म. नं. 1025, सैक्टर-28, फरीदाबाद-121003	01/04/2003
14.	076026	श्री नवल किशोर, एफसीए 1207, सैक्टर-9, फरीदाबाद-122001	02/02/2004
15.	078831	श्री अमित कुमार, एसीए सी/ओ श्री टी. आर. लखानी, आईएफएफसीओ कालोनी, सैक्टर-17बी, गुडगांव-122003	23/01/2004
16.	080581	श्री अशोक कुमार, एफसीए 217, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, एचआईजी फ्लैट्स, अर्बन एस्टेट, फेस-1, जालंधर-0	01/06/2003
17.	080748	श्री गोयल सुदर्शन कुमार, एफसीए एससीएफ-287, मोटर मार्केट, मनी माजरा, चण्डीगढ़-0	01/04/2003
18.	081586	श्री पुरी अश्वनी कुमार, एफसीए 28/2, फ्रैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065	10/06/2003
19.	081615	श्री अश्वनी कुमार, एफसीए 213, अरूणाचल, 19, बारहखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001	07/10/2003
20.	082516	श्री शर्मा चक्रवर्ती, एफसीए 68/75-ए, गार्डन कालोनी, जालंधर सिटी, जालंधर-0	27/03/2003
21.	082872	श्री कपूर दीपक, एफसीए पी-1, आदित्य विहार, 30 सैयदुलाजय महारौली, बदरपुर रोड, नई दिल्ली-110030	06/06/2003
22.	083065	श्री सोना हरिन्द्र कुमार, एफसीए सी-15, आचार्य निकेतन, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091	10/09/2003
23.	083728	श्री कपूर राजीव, एफसीए डी-35, ग्राउंड फ्लोर, गली नं. 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	01/04/2003

24.	083831	श्री भसीन रोहित, एसीए 05/06/2003 डी-408 डिफेन्स कलोनी, नई दिल्ली-110024	38.	087659	श्री जैन जॉय कुमार, एफसीए 06/06/2003 जे-188, पहली मंजिल, साकेत, नई दिल्ली-110017
25.	084134	श्री मथारू हरजिन्दर सिंह, एफसीए 12/12/2003 ए-29 बेसमेंट, दयानंद कलोनी, लाजपत नगर -4, नई दिल्ली-110024	39.	087858	श्री नरेन्द्र कुमार, एफसीए 01/05/2003 सी/ओ श्री आर. पी. मारवाह, 274 साईट-1, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018
26.	084316	श्री मुखर्जी श्यामल, एफसीए 05/06/2003 पी-1 आदित्य विहार, 30 सैयदुलाजब, महरौली बंदरपुर रोड, नई दिल्ली-110030	40.	087905	श्री बेरी गुरेन्द्र कुमार, एफसीए 01/07/2003 21 पावर कलोनी-2, निकट शक्ति विहार, पटियाला-147001
27.	084342	श्री खोसला गगन, एसीए 12/11/2003 डी-1079, न्यू फ्रेंड्स कलोनी, नई दिल्ली-110065	41.	088237	श्री अतुल कुमार, एफसीए 15/06/2003 175-बी, न्यू कलोनी, गुडगाँव-122001
28.	084563	श्री तवाकले अनूप कुमार, एफसीए 01/04/2002 54-ए, उदय पार्क, नई दिल्ली-110049	42.	088312	श्री गुप्ता राजेश कुमार, एफसीए 20/05/2003 23/27 तिलक नगर, नई दिल्ली-110018
29.	084644	श्री मित्तल अनिल, एसीए 15/07/2003 बी1/446, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058	43.	088324	श्री कन्धारी ठाकुर सेन, एसीए 05/06/2003 531, सेक्टर 21ए, फरीदाबाद-0
30.	085010	श्री नय्यर राज कुमार, एफसीए 12/03/2003 बी-106 अमर कलोनी, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024	44.	088543	मिस. रिखे अनिता, एफसीए 01/08/2003 सेक्टर-सी, पॉकेट-9, एसएफएस फ्लैट नं 9170, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070
31.	085079	श्री सोनी सुरेन्द्र कुमार, एफसीए 01/08/2003 31627, ओल्ड याले रोड, एबोट्सफोर्ड, बीसी, कनाडा-वी2टी 2बी4, कनाडा	45.	088720	श्री कपाही राजीव, एफसीए 30/10/2003 ए-294 डिफेन्स कलोनी, नई दिल्ली-110024
32.	085340	श्री साहनी संजीव, एसीए 01/04/2003 बी-29 भूतल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024	46.	088741	श्री पुरोहित गोवर्धन प्रसाद, एफसीए 05/06/2003 11-ए, सुचेता भवन, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110002
33.	085711	श्री गर्ग कुँवर राहुल, एफसीए 05/06/2003 2431, सेक्टर-9, फरीदाबाद-0	47.	089061	श्री दहूजा रंजीव कुमार, एफसीए 13/11/2003 एससीओ 42, सेक्टर-26, मध्य मार्ग, वण्डीगढ़-160019
34.	085723	श्री सक्सेना आलोक, एफसीए 10/05/2003 144, बैंक एन्कलेव, इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन, दिल्ली-110092	48.	089199	श्री मल्हौत्रा विजय कुमार, एफसीए 01/03/2004 मण्डी सतनाली, हरियाणा, मोहिन्दरगढ़-123024
35.	085807	श्री अग्रवाल कृष्ण चन्द, एफसीए 31/03/2003 सी/ओ एस.सी. अग्रवाल, फ्लैट नं 254, पॉकेट जीएच-13, एसएफएस फ्लैट्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087	49.	089421	श्री गुप्ता सुनील कुमार, एफसीए 10/06/2003 103 बी रेलवे हाऊसिंग सोसायटी, माला रोड, कोटा (राजस्थान)
36.	085872	श्री गुप्ता सुनील कुमार, एफसीए 17/01/2004 ए-96, मेन रोड, रूम नं. 106, पहली मंजिल, मेन रोड, वजीराबाद इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052	50.	089460	श्री गुप्ता दिनेश, एफसीए 01/05/2003 दिनेश राम एण्ड कंपनी, यू-103, शकरपुर, दिल्ली-110092
37.	087638	श्री राय दीपक, एफसीए 15/04/2003 दीपक राय एण्ड एसोसिएट्स, सेक्टर-सी, पॉकेट-9, फ्लैट नं. 9670, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070	51.	089664	श्री बजाज सुनील, एफसीए 18/12/2003 जीएच-14/897, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087
			52.	089731	श्री गोभिल नरेन्द्र देव, एफसीए 28/01/2004 बी-157, सेक्टर-11, फरीदाबाद-121006

53.	089754	श्री तौमर स्वतंत्र कुमार, एफसीए 06/02/2004 ए-34 ईस्ट कृष्ण नगर, दिल्ली-110051	68.	092161	श्री मंजुमदार कुशल, एसीए 01/07/2003 डी-52, दूसरी मंजिल, यूनिटेक साऊथ सिटी-2, गुडगाँव सोहाना रोड, गुडगाँव-122101
54.	090054	श्री चौदगेटिया नीलरत्न, एफसीए 05/06/2003 प्राइस वाटर हाऊस, सयैदुल्लाहजब, डी ब्लॉक के सामने, साकेत, महारौली बदरपुर रोड, नई दिल्ली-110030	69.	092196	श्रीमति सुमी गुरमीत सिंह, एफसीए 03/03/2004 एचएल 76, पहली मंजिल, फेस-2, एस.ए.एस नगर, मोहाली, चण्डीगढ़-160050
55.	090207	श्री मल्होत्रा राकेश, एसीए 31/03/2003 ए/26/डी, डी.डी.ए. फ्लैट्स, मुनिरका, नई दिल्ली-110067	70.	092254	श्री गुप्ता उमेश, एफसीए 01/04/2003 517 सेक्टर-4, अरवन एस्टेट, गुडगाँव-122001
56.	090439	श्री गुप्ता राजीव, एफसीए 04/06/2003 एमबीएफ डवलपमेन्ट्स लिमिटेड, एमबीएफ हाऊस, 17-डी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002	71.	092267	श्री चड्ढा रिवनीत सिंह, एफसीए 26/11/2003 एफ-170, पहली मंजिल, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024
57.	090556	श्री खन्ना योगेश, एफसीए 09/03/2004 1/9232, वेस्ट रोहताश नगर, लेन नं.-2, क्लोस्ड लेन, शाहदरा, दिल्ली-110032	72.	092293	श्री गुप्ता चन्द्रशेखर, एफसीए 31/03/2003 नीलेश शेखर एण्ड कंपनी, सी-9/160, यमुना विहार, दिल्ली-110053
58.	090666	श्री खेर राजीव, एसीए 18/12/2003 पी. ओ. बॉक्स-46309, आवू धाबी-0	73.	092372	श्री पंडित अतुल, एसीए 07/11/2003 सी/ओ युनाईटेड कंपेन्स पब्लिसिस, हाऊस-16, बिल्डिंग-6, स्ट्रीट मालया ड्मीट्रोव्का, मोस्को-127006, रशिया
59.	091066	श्री खन्ना सुधीर कुमार, एफसीए 01/09/2003 अलाहमेडियन कॉन्ट्रेक्टिंग एण्ड ट्रेनिंग, पोस्ट बॉक्स नं. 2596, दुबई-0	74.	092418	श्री जैन अजीत, एफसीए 01/06/2003 96 प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005
60.	091227	श्री गुप्ता राजेश, एफसीए 20/12/2003 हाऊस नं. 94, सेक्टर-16, पंचकुला-134109	75.	092492	श्री अत्री रंजीव, एसीए 20/05/2003 हाऊस-442, फेस-6, एस. ए. एस. नगर, मोहाली-160055
61.	091441	श्री भरोडा यशपाल, एसीए 13/12/2003 हाऊस नं. 1113, रानी बाग, दिल्ली-110034	76.	092582	श्री गुप्ता राजेश, एसीए 18/08/2003 सुदेश निवास, 3, गोल्डन कलोनी, दीप नगर, जालंधर केन्ट, जालंधर-144005
62.	091705	श्री संदीप सिंह, एफसीए 01/04/2003 ई-420, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048	77.	092675	श्रीमति जैन पूर्णिमा, एफसीए 27/12/2003 3072/6एम, स्ट्रीट नं. 10, रंजीत नगर, नई दिल्ली-110008
63.	091812	श्री बक्शी राजीव, एसीए 22/05/2003 एच-16 मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048	78.	092806	श्री बुद्धिराजा उमेश कुमार, एफसीए 01/04/2003 112-सी एलआईजी, डीडीए फ्लैट्स, झिलमिल कलोनी, दिल्ली-110095
64.	091847	श्रीमति महाजन ज्योती, एफसीए 30/11/2003 73 स्यू पृथ्वी नगर, निकट किशन पुरा चौक, जालंधर-144001	79.	092886	श्री नवनीत ज्योती, एफसीए 19/08/2003 121 एमबीडी मार्केट, निकट नाज़ मिनेमा, जालंधर-0
65.	091966	श्री बंसल प्रावी, एफसीए 10/07/2003 245 बैंक एन्कलेव, दिल्ली-110092	80.	092942	श्री गुप्ता कृष्ण मोहन, एफसीए 01/07/2003 हाऊस नं. 1562, सेक्टर-7, एक्सटेंशन, गुडगाँव-0
66.	092025	श्री गुप्ता राजेश, एसीए 14/08/2003 राजेश जगदीश एण्ड एसोसिएट्स, डी-4 गुजरावाला अपार्टमेंट्स, जे-ब्लाक, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018	81.	092949	श्री जैन मनोज कुमार, एफसीए 01/04/2003 ए-603, अरावली हाईट्स, जीएच-8, सेक्टर-21-सी-3, हरियाणा, फरीदाबाद-121002
67.	092115	श्री सुनील कुमार, एसीए 05/06/2003 टी-29/एल बलजीत नगर, रोड नं. 20, निकट वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008			

82.	092958	श्री अग्रवाल मनोज कुमार, एफसीए 01/01/2004 इंडियाबल्स फाइनेंस सर्विसिज प्रा. लि., एफ 60, मल्होत्रा बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	95.	094157	श्री गुप्ता राजेश, एसीए 31/03/2003 सी-715 विकास पुरी, नई दिल्ली-110018
83.	093075	श्रीमति जैन उपासना, एफसीए 01/04/2003 ए-2, जगत पुरी, दिल्ली-110051	96.	094221	श्री सिंघल गिरीश, एसीए 03/11/2003 सी-39 रोहित कुंज, पीतमपुरा, पीओ रानी बाग, दिल्ली-110034
84.	093077	श्रीमति गुप्ता सरिता, एसीए 31/03/2003 137 एलआईजी फ्लैट्स, हस्तसाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	97.	094231	श्री कपूर रंजीव, एफसीए 14/05/2003 255, अरूणादया अपार्टमेंट्स, प्लॉट 15, फेस-2, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018
85.	093102	श्री जैन राजेश कुमार, एफसीए 08/08/2003 करोर सीजीएचएस लिमिटेड, सेक्टर-6, प्लोट नं. 39सी, फ्लैट नं. ए-505, फेस-1, द्वारका, नई दिल्ली-110045	98.	094254	श्री अमरजीत सिंह, एसीए 15/05/2003 ईए-1/27, इन्दर पुरी, नई दिल्ली-110012
86.	093372	श्री राज कुमार, एसीए 14/08/2003 451 दूसरी मंजिल, कोहट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	99.	094516	श्री अग्रवाल समीर, एसीए 01/07/2003 हाऊस नं. 3189, सेक्टर-40-डी, चण्डीगढ़-0
87.	093416	श्री गुप्ता रितेश, एसीए 01/05/2003 ए-26 हौज खास, नई दिल्ली-110016	100.	094616	श्री बैजल पंकज, एसीए 12/08/2003 125 मुनिरका विहार, नई दिल्ली-110067
88.	093630	श्री संदीप, एसीए 01/04/2003 सी/ओ भारती सेलूलर लि., डी-183 (बेसमेंट) ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया फेस-1, नई दिल्ली-110020	101.	094670	श्री गुप्ता संजय, एसीए 31/03/2003 पहली मंजिल, 87 सुन्दर नगर, नई दिल्ली-110003
89.	093639	श्री मनजिन्दर सिंह, एसीए 31/01/2004 डब्ल्यू. जेड-13/2, पहली मंजिल, गली नं. 18 कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018	102.	094738	श्री देवेश नारायण, एसीए 29/01/2004 डब्ल्यूजेड-1128, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034
90.	093802	श्री विकास, एसीए 17/06/2003 हाऊस नं. 3/10 रेलवे कलोनी, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021	103.	094822	श्री समीर राय, एफसीए 05/05/2003 ई-12/5 कृष्ण नगर, दिल्ली-110051
91.	093972	श्री गुप्ता उमेश, एफसीए 18/09/2003 आर-119/1, मॉडल टाऊन-3, दिल्ली-110009	104.	094853	श्रीमति रेखी रूचि, एसीए 20/03/2003 ए-21 सुभावना निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
92.	093997	श्री चोपड़ा विवेक, एफसीए 22/04/2003 सीडी-45, मलिबू टाऊन, गुडगाँव सोहन रोड, गुडगाँव-122001	105.	094854	श्री शाह मितेश कुमार, एफसीए 11/08/2003 बी-9/23 आतम बल्लभ सोसायटी, सेक्टर-13 प्लॉट नं. 14, रोहिणी, दिल्ली-110085
93.	094010	श्री मदन राहुल, एफसीए 01/04/2003 623, प्रोफेसर्स कलोनी, हरियाणा, कैथल-132027	106.	094856	श्री हांडा विकास, एसीए 01/01/2004 सी/ओ श्री नरेन्द्र शर्मा, हाऊस नं. 133, सेक्टर-3, नानक नगर, जम्मू, जम्मू तबी-0
94.	094042	श्री गर्ग प्रवीण, एसीए 31/03/2003 एफ-84 गली शीतला मंदिर, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018	107.	095022	श्री संजीव कुमार, एफसीए 31/07/2003 बी-1/2633, मोहल्ला गुजरौवाला, ओल्ड राजपुरा (पंजाब), राजपुरा-140401
			108.	095139	श्री सुरेन्द्र कुमार, एसीए 01/10/2003 48 इन्दिरा कलोनी, बुरिया गेट (हरियाणा), जगाधरी-135003
			109.	095215	श्री गोयल अंशुक, एफसीए 17/09/2003 एम/एस मोहसीन हैदर दरविश एलएलसा, पीओ नं. 880, रूवी, मस्कट-112, सल्तनत ऑफ ओमान

110.	095271	श्री नरेन्द्र कुमार, एफसीए 10/06/2003 आरजेड-51, माया भवन, स्ट्रीट नं. 2, मेन सागर पुर, नई दिल्ली-110046	123.	096545	श्री बांका अमितोष कुमार, एफसीए 08/02/2004 64-बी किलोकरी, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014
111.	095330	श्री राठी अनुज, एफसीए 10/03/2004 बीडब्ल्यू-17/बी शालीमार बाग, दिल्ली-110088	124.	096570	श्री सिंघल राहुल, एसीए 27/12/2003 फ्लैट नं. 75, हेबो अपार्टमेंट्स, सेक्टर-16ए, हरियाणा, फरीदाबाद-121002
112.	095336	श्री मल्होत्रा विक्रम, एफसीए 01/02/2004 पीओ. बॉक्स 1416, पोस्टल कोड-114, जिबरू-0, सलतनत ऑफ ओमान	125.	096731	श्री प्रवीन कुमार, एसीए 29/03/2003 बी-87/1, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095
113.	095543	श्री ग्रोवर जितेन्द्र, एसीए 12/12/2003 ए-113, रिजेन्सी पार्ट 1, डीएलएफ फेस-4, हरियाणा, गुडगाँव-122001	126.	096802	श्री त्रिखा संजीव कुमार, एसीए 29/01/2004 1513/11, बादसहाही बाग, निकट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अम्बाला-134003
114.	095840	श्री संजीव कुमार, एसीए 01/09/2003 1260, सेक्टर-21, पंचकुला-0	127.	096958	श्री सचदेवा दीपक, एसीए 01/02/2004 हाऊस नं. बीएम 59/2, किला वाली गली, (पंजाब), फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर-152002
115.	095853	श्री गुप्ता प्रदीप कुमार, एसीए 01/04/2003 4534 दाई वारा, नई सड़क, रोशन पुरा, दिल्ली-110006	128.	097034	श्री ग्रोवर कपिल, एसीए 15/09/2003 51/12 वीर भवन चौक (हरियाणा), पानीपत-132103
116.	095859	श्री गुप्ता राज कुमार, एफसीए 03/02/2004 2668 गली जाटवारा, नया बाजार, दिल्ली-110006	129.	097300	श्रीमति सिमर प्रीत कौर, एसीए 23/08/2003 565/2 घर सोधियान, पटियाला-147001
117.	095955	श्री पटेल मोहन प्रसाद, एसीए 21/07/2003 ए-76, पहली मंजिल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	130.	097751	श्री शर्मा सुनिल, एसीए 08/07/2003 47 गोविन्द खण्ड, झिलमिल कलोनी, दिल्ली-110095
118.	095987	श्री गुप्ता संजल कुमार, एसीए 01/10/2003 2800 बी/207, विश्राम नगर, त्रिनगर, दिल्ली-110035	131.	097802	श्री अग्रवाल साहिल, एसीए 16/02/2004 सी-422 निर्माण विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
119.	096102	श्री विकास कुमार, एफसीए 01/01/2004 सी/ओ एस लाल एण्ड कंपनी, 15 आर्य स्कूल शोपिंग कॉम्प्लेक्स, जी. टी. रोड, पानीपत-132103	132.	097832	श्री बिस्ता संतोष राज, एसीए 30/12/2003 16/53 थामेल 29, पीओ. बॉक्स 6641, काठमाण्डू-0, नेपाल
120.	096343	श्री अग्रवाल मनीष, एसीए 01/05/2003 केसी 45/बी फेस-1, अशोक विहार, दिल्ली-110052	133.	097924	श्री अरोड़ा मनोज, एसीए 05/03/2003 बीजे-31, शालीमार बाग (डब्ल्यू). दिल्ली-110088
121.	096351	श्री रमन कुमार, एसीए 24/12/2003 सी/ओ ओम प्रकाश रविन्द्र कुमार, शिव शंकर मार्केट, नरवाना जिंद, हरियाणा, जिंद-126116	134.	098034	श्री अग्रवाल मुकेश कुमार, एसीए 27/12/2003 एफ-170ए, दूसरी मंजिल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
122.	096376	श्री चंदेल अनूप, एसीए 06/05/2003 223, सेक्टर-2, हरियाणा, पंचकुला-134112	135.	098043	श्री अग्रवाल रजत, एसीए 12/12/2002 रजत अरूण अग्रवाल एण्ड कंपनी, सी/ओ. श्री अजय अग्रवाल, गुप्ता मान एण्ड एसोसिएट्स, जी-73 लक्ष्मीनगर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
			136.	098089	श्री नौटियाल शेखर, एसीए 22/12/2003 वीपी-271-बी मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110088

137.	098106	श्री सूद मनोज, एसीए पहली मंजिल, सपना बेंगल स्टोर, गंज बाजार, हिमाचल प्रदेश, सोलन-173212	12/12/2003	150.	098971	श्री जोशी दीपक, एसीए 105 पॉकेट एफ/17, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085	09/09/2003
138.	098207	श्री अग्रवाल विजय कुमार, एसीए डी-361 गली नं. 12, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	10/08/2003	151.	099025	श्री गुप्ता मयंक, एसीए 99/85, त्रिलोक्य अपार्टमेंट, आई. पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092	01/07/2003
139.	098340	श्री भाई रजत, एसीए फाईनेंस मैनेजर, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (इंडिया) प्रा. लि., 55/56, फ्री प्रेस हाऊस, 215, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नारीमन पोइंट, मुंबई-400021	23/06/2003	152.	099030	श्री गुप्ता राकेश कुमार, एसीए पॉकेट डी-14, हाऊस नं. 181, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085	08/10/2003
140.	098374	श्री कुर्नो गो विक्रम, एसीए सी-221 निर्माण विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092	20/05/2003	153.	099051	श्री चावला सुरजीत सिंह, एसीए एन-19 डॉ० मुखर्जी नगर, निकट बत्रा सिनेमा दिल्ली-110009	03/02/2004
141.	098421	श्री घनश्याम, एसीए हाऊस नं. 14/46, पी. ए. यू. केम्पस, लुधियाना-141004	09/02/2004	154.	099076	श्री गुप्ता प्रवीन कुमार, एसीए सी-9/4सी गली नं. 78, अर्जुन मोहल्ला, मौजपुर, दिल्ली-110053	15/02/2004
142.	098570	श्री सिंह त्रिभुवन, एसीए एफ-285 पाण्डव नगर, दिल्ली-110091	15/11/2003	155.	099127	श्री मित्तल अकलेश, एसीए 139 टैगोर पार्क, निकट मॉडल टाऊन-1, दिल्ली-110009	24/12/2003
143.	098643	श्री हरजीत कुमार, एसीए हाऊस नं. 31719, निकट कालरा मेडिकोज, मेन रोड पारस राम नगर (पंजाब), भटिंडा-151005	09/02/2004	156.	099279	श्री सुरेश कुमार, एसीए 1280, सेक्टर 34-सी, चण्डीगढ़-0	09/02/2004
144.	098690	श्री बंसल नीरज कुमार, एसीए एफ-5/18, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051	01/07/2003	157.	099327	श्री विश्राम, एसीए हाऊस नं. 174, शक्ति कलोनी, अपो. विलेज जांदली, मॉडल टाऊन, अम्बाला सिटी, अम्बाला-134003	29/03/2003
145.	098805	श्री मेहरोत्रा विवेक, एसीए डी-13/42 सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085	30/07/2003	158.	099412	श्री जैन पंकज कुमार, एसीए 7355 गली तलीयान, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-110006	03/12/2003
146.	098808	श्री जैन अमित, एसीए बी4 ए/7 राना प्रताप बाग, दिल्ली-110007	15/12/2003	159.	099460	श्री गांधी रोहित, एसीए ए-84 शंकर गार्डन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110018	20/10/2003
147.	098876	श्रीमति कौर किरनजीत, एसीए हाऊस नं. 70 वार्ड नं. 4, बैंक स्ट्रीट, दोराहा, लुधियाना-141421	01/09/2003	160.	099478	श्री गोयल अमित, एसीए ए-39 इन्दरपुरी, नई दिल्ली-110012	01/05/2003
148.	098921	श्री चौधरी आशिष, एसीए ई-365/366 रमेश नगर, नई दिल्ली-110015	15/12/2003	161.	099494	श्री मखीजा धीरज कुमार, एसीए अर्नस्ट एण्ड यंग, पीओ. बॉक्स नं. 1750, रूवोई -112, छठी मंजिल, बैंक धोफर बिल्डिंग मतराह बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मस्कट-0 सलतनत ऑफ ओमान	14/10/2003
149.	098928	श्री गुप्ता दीपक कुमार, एसीए असिस्टेंट मैनेजर/एकाउंट्स, इरकन इंटरनेशनल लिमिटेड, रेलवे होलीडे होम, तुलसी बाग, श्रीनगर-0	28/05/2003				

162.	099510	श्री राजेन्द्र कुमार, एसीए 01/07/2003 3ई/61, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद-121001	173.	400430	श्री राव राजेश, एसीए 03/04/2002 सिनियर एल्पाउंटेंट, एफ एण्ड ए डिपार्टमेंट, दुलहस्ती एचई प्रोजेक्ट (एनएचपीसी), चेनाब नगर, सेक्टर-2, किस्तवार, डिस्ट्रिक्ट, डोडा, जम्मू तवी-182206
163.	099527	श्री भसीन राजन, एसीए 01/07/2003 32-डी सिटिजन एन्कलेव, सेक्टर 14 (एक्स.) रोहिणी, दिल्ली-110085	174.	400981	श्री सिंह तरन जीत, एसीए 26/03/2003 सी/ओ जेबी सिंह, 60 एसएफएस फ्लैट्स, शक्ति अपार्टमेंट्स, अशोक विहार, फेस-3, दिल्ली-110052
164.	099632	श्रीमति मित्तू पूजा, एसीए 25/03/2003 18/7, भूतल, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060	175.	401908	श्री गुप्ता रोहित कुमार, एसीए 01/04/2003 ए-98, नेहरू विहार कलोनी, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
165.	099702	श्री गडोडिया क्षितिज, एसीए 30/09/2003 सी-1/210 प्रिंटर्स अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 18, सेक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली-110085	176.	500026	श्री अग्रवाल रमन, एसीए 15/02/2004 186 इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-2, राम दरबार, चण्डीगढ़-0
166.	099710	श्री भवदीप सिंह, एसीए 09/04/2003 फ्लैट नं. 8, चित्रकूट अपार्टमेंट्स, ईस्ट अर्जुन नगर, सी.बी.डी. शाहदरा, दिल्ली-110032	177.	500074	श्री सुरेश कुमार, एसीए 01/11/2003 सी/ओ श्री विजय मेहता, विलेज एण्ड पीओ मेहना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, सोनीपत-131025
167.	099739	श्री जैन पंकज, एसीए 04/08/2003 डी-16/220 सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085	178.	500082	श्री सिद्धार्थ लाल, एसीए 31/03/2003 12, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065
168.	099812	श्री खण्डेलवाल अभिषेक, एसीए 01/09/2003 फ्लैट नं. 28 सी, पॉकेट ए, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, न्यू कोडली, मयूर विहार फेस-3, दिल्ली-110096	179.	500089	श्री गुप्ता मनीष, एसीए 01/04/2003 1699/4 गोविन्दपुरी एक्सटेंशन, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
169.	099823	श्री जैन अंशुल, एसीए 27/02/2004 1159 दूसरी मंजिल, कूचा महाजनी, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006	180.	500097	श्री खान असलम, एसीए 23/07/2003 डी-400/4, जैतपुर एक्सटेंशन-2, अपोजिट जामा मस्जिद, नई दिल्ली-110044
170.	099909	श्री कालरा अजय, एसीए 20/03/2003 सी/ओ कनिका चड्ढा, 27 हनुमान रोड, नई दिल्ली-110001	181.	500111	श्रीमति जैन रूचिका, एसीए 01/04/2003 ए-604 वर्धमान अपार्टमेंट्स, मयूर विहार-1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091
171.	099942	श्री गुप्ता अरुण कुमार, एसीए 01/05/2003 सी-1346, 27 फुट रोड, दबुआ कलोनी, एनआईटी फरीदाबाद, फरीदाबाद-121001	182.	500120	श्रीमति सेठ एकता, एसीए 15/09/2003 सी-53 डिफेन्स कलोनी, नई दिल्ली-110024
172.	099957	श्री पंवर कमल सिंह, एसीए 06/08/2003 निकट सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, हरदयाल नगर, ब्लॉक रोड, हाईबोवल कलाँ, पीओ. सलीम तबरी, लुधियाना-141008	183.	500128	श्री निशावन लवलीन, एसीए 29/12/2003 हाऊस नं. 3165 सेक्टर-21-डी, चण्डीगढ़-0
			184.	500131	श्रीमति गुप्ता पायल, एसीए 05/05/2003 113 ए, डीडीए फ्लैट्स, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032
			185.	500199	श्री जिंदल अजय कुमार, एसीए 20/06/2003 एस/ओ प्रकाश चन्द जिंदल, टैगोर स्ट्रीट, निकट एस डी एम रेजीडेंस, मनसा-151505

186.	500203	श्री कटारूका रजनीश कुमार, एसीए 09/03/2004 जाओ कैंस (ट्रांसमिशन), महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, ईस्ट विंग, पांचवी मंजिल, टेलिफोन हाऊस, वी एस रोड, दादर (वेस्ट), मुंबई-400028	199.	500625	श्री नारंग वैभव, एसीए 15/04/2003 एच-92, डीडीए फ्लैट्स, नारायना विहार, नई दिल्ली-110028
187.	500211	श्री खान नासिर इकबाल, एसीए 02/12/2003 232/5 गफफार मंजिल, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025	200.	500680	श्री शर्मा रंजन कुमार, एसीए 20/03/2003 11, गीता कलोनी, हरियाणा, सोनीपत-0
188.	500221	श्री जितेन्द्र कुमार, एसीए 01/05/2003 हाऊस नं. 36-ए, नंदवानी नगर, सोनीपत-131001	201.	500687	श्रीमति सुप्रीत कौर, एसीए 25/03/2003 हाऊस नं. 644/5 फेक्ट्री एरिया, गीतिया नं. 147003
189.	500270	श्री गोयल वैभव, एसीए 28/01/2004 37 सहयोग अपार्टमेंट्स, संत नगर, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	202.	500748	श्री वाधवा सचिन, एसीए 31/03/2003 349, सेक्टर-4, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022
190.	500289	श्री जैन अमित, एसीए 28/01/2004 1ए/31 ए अशोक विहार, फेस-1, दिल्ली-110052	203.	500767	श्री कुकरोजा सचिन, एसीए 25/11/2002 आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., एक्सप्लोरर बिल्डिंग, चौथी मंजिल, आईटीपीएल, व्हाइट फील्ड रोड, बंगलौर-560066
191.	500299	श्री वी. सन्तोष, एसीए 17/03/2003 बी-61 एचपीएल स्टाफ कलोनी, जंगपुरा, जम्मू तवी-110014	204.	500778	श्री गुप्ता शिव कुमार, एसीए 01/12/2003 आरजेड 85 बी, राज नगर-2, पालम कलोनी, नई दिल्ली-110045
192.	500312	श्री पुरधानी विकास, एसीए 18/12/2003 5 करन नगर, जम्मू तवी-180005	205.	500787	श्री सिंह गोपाल, एसीए 15/12/2003 बी पी ओ कोठी, देह घुमारग्रीन, डिस्ट. बिलासपुर बिलासपुर (एचपी)-174021
193.	500348	श्री भारत, एसीए 09/02/2004 लक्ष्मी निवास, 5/554 इंदिरा कलोनी, सोनीपत-131001	206.	500800	श्री जैन गगन, एसीए 31/03/2003 69 वीर नगर, जैन कलोनी, रिकेट गुडमंडी, दिल्ली-110007
194.	500396	श्री अरोड़ा संदीप, एसीए 09/09/2003 जी-57, दूसरी मंजिल, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018	207.	500886	श्रीमति बुद्धिराज ज्योति, एसीए 31/03/2003 26/96, दूसरी मंजिल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
195.	500451	श्री गोयल संजीव, एसीए 09/02/2004 1485 स्ट्रीट नं. 2, नई बस्ती, भटिंडा-151001	208.	500904	श्रीमति देवम सुनिधि, एसीए 09/03/2004 एल-12 किर्ती नगर, नई दिल्ली-110015
196.	500456	श्री मित्तल अमित, एसीए 08/02/2004 799, सेक्टर-2, पंचकुला-134109	209.	500926	श्रीमति हरिहरन सुधा, एसीए 01/08/2003 डी 2/2245 वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070
197.	500539	श्री शर्मा गोपाल, एसीए 04/03/2004 8-एफ पॉकेट-1, फेस-1, मयूर विहार, दिल्ली-110091	210.	500957	श्रीमति पोटदार सोनिया, एसीए 31/03/2003 46/पहली मंजिल, वृंदावन होटल कॉम्प्लेक्स, चौथा क्रोस, दूसरा मेन, संपाईग रोड, मालेश्वरम, बंगलौर-560003
198.	500567	श्रीमति शर्मा दीपा, एसीए 24/06/2003 34 विजय ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, स्ट्रीट नं. 3, दिल्ली-110092	211.	500997	श्री खुराना रिपु दमन, एसीए 21/04/2003 एफ/23 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
			212.	501029	श्री अगीत कुमार, एसीए 28/12/2003 बी-20 दूसरी मंजिल, दिलशाद कलोनी, दिल्ली-110095

213.	501036	श्रीमति बाहरी मोनिका, एसीए 29/11/2002 हाऊस 1110, सेक्टर-11, पंचकुला-134112	229.	501599	श्री गोयल विष्णु, एसीए 03/09/2003 9 ए एम सी कलानी, हिसार-125005
214.	501093	श्री हितेश कुमार, एसीए 24/04/2003 27 पावर कलानी, -2, पटियाला-147001	230.	501600	श्रीमति गुप्ता आशिमा, एसीए 09/02/2004 सी/ओ श्री एस के गुप्ता, 7 दिल्ली कलानी, पंजाब, पटियाला-147001
215.	501117	श्री धई अमित, एसीए 30/03/2003 हाऊस नं. 35, स्ट्रीट नं. 26, जालंधर कैंट, जालंधर-144005	231.	501638	श्रीमति मेहता सुविधा, एसीए 22/03/2003 293 दिलबाग नगर, जालंधर सिटी, जालंधर-144002
216.	501142	श्री अग्रवाल रमन, एसीए 03/06/2003 2586, सेक्टर-15, पंचकुला-134113	232.	501648	श्री अग्रवाल अनुज, एसीए 01/10/2003 बी-2/202, यमुना विहार, दिल्ली-110055
217.	501145	श्री अग्रवाल नितिन, एसीए 31/03/2003 एफ-78, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085	233.	501671	श्री अग्रवाल धीरज, एसीए 15/07/2003 3 सी/43 भूतल, न्यू रोहनक रोड, नई दिल्ली-110005
218.	501156	श्रीमति गुप्ता गरिमा, एसीए 28/03/2003 ए-201 दूसरी मंजिल, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024	234.	501718	श्री गुप्ता वरुण, एसीए 01/04/2003 हाऊस नं. 51, सेक्टर-11, पंचकुला-134112
219.	501157	श्री चौधरी रमेश कुमार, एसीए 09/02/2004 भारत संचार निगम लिमिटेड, एससीओ 56-57, सेक्टर-17ए, चण्डीगढ़-0	235.	501720	श्री सरपाल संजीव कुमार, एसीए 14/07/2003 क्वार्टर नं. 240, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट्स, अशोक विहार, फेस-4, दिल्ली-110092
220.	501179	श्री गुप्ता विनित, एसीए 29/01/2004 हाऊस नं. 332, सेक्टर-37, फरीदाबाद-121003	236.	501755	श्री सिंह राकेश कुमार, एसीए 01/07/2003 यू-17ए, शकरपुर, दिल्ली-110097
221.	501233	श्री सूरी मंदीप, एसीए 13/02/2004 614 ऋषि नगर, शकूर अस्ती, दिल्ली-110034	237.	501760	श्री भटनागर अनुपम स्वरूप, एसीए 16/07/2003 डी-437, मोती बाग-1, नई दिल्ली-110021
222.	501238	श्री मनचंदा कपिल, एसीए 28/01/2004 एनपी 153/ए पीतमपुरा, दिल्ली-110088	238.	501767	श्री कृष्णमूर्ति के., एसीए 27/10/2003 हाऊस नं. 431, सेक्टर-16, फरीदाबाद-121002
223.	501325	श्री खरबंदा जसप्रीत सिंह, एसीए 30/12/2003 सी 196/1 मायापुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110028	239.	501819	श्री गुप्ता सौरभ, एसीए 28/11/2003 डब्ल्यूजेड-48, स्ट्रीट नं.-1, साध नगर, पालम एन्क्लेव, नई दिल्ली-110045
224.	501341	श्री सूरी चेतन, एसीए 10/09/2003 सी-336 विवेक विहार, दिल्ली-110095	240.	501825	श्री पौड़वाल अमित, एसीए 09/02/2004 सी-119 निर्माण नगर, किंग्स रोड, श्याम नगर, जनपथ, जयपुर-0
225.	501408	श्री गर्ग सचिन, एसीए 12/02/2004 591-ए, मॉडल टाऊन, पानीपत-132103	241.	501844	श्री अग्रवाल राजेश कुमार, एसीए 01/09/2003 हाऊस नं. 4091, पहली मंजिल, सेक्टर-46 डी चण्डीगढ़-160047
226.	501539	श्री पंकज कुमार, एसीए 03/11/2003 प्रीत कलानी, नए बस स्टेशन के पीछे, भवानीगढ़ डिस्ट्रिक्ट संगरूर, संगरूर-148026	242.	501850	श्रीमति छिब्रर मोहिता, एसीए 22/11/2002 बी-129, पहली मंजिल, निर्माण विहार, दिल्ली-110092
227.	501542	श्री गुप्ता सुशील, एसीए 11/12/2003 फ्लैट नं. 9, समाज कल्याण अपार्टमेंट्स, एफ ब्लॉक, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018	243.	501861	श्री सोनी विष्णु कुमार, एसीए 03/11/2003 सी/ओ श्री लक्ष्मी नारायण सोनी, शोप नं. 17, नेहरू मार्केट, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, कोटकापुरा-151204
228.	501552	श्रीमति आनंद सोनल, एसीए 31/03/2003 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आई पी मार्ग, नई दिल्ली-110002			

244.	501866	श्री सिंह राम तिरथ, एसीए 23/01/2004 14575-82 एवेन्यू, पीबीवी 3 एस- 9जे 3, सरे बी.सी.-0, कनाडा.	252.	502435	श्रीमति गुप्ता पारूल, एसीए 03/03/2004 737 सेक्टर ए, पॉकेट सी, वसन्त कुन्ज, नई दिल्ली-110070
245.	501941	श्री जैन अनुराग, एसीए 23/06/2003 फ्लैट नं. 1076, पॉकेट जी.एच.-13, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087	253.	502444	श्री गर्ग सचिन, एसीए 10/11/2003 ए-17, टाईप-6, थर्मल कलोनी, भटिंडा-151002
246.	501963	श्री देव कान्त, एसीए 13/02/2004 332/16, प्रेम नगर, हरियाणा, हिसार-125001	254.	502459	श्री जैन पियूष, एसीए 01/10/2003 7/391 फर्श बाजार, शाहदरा, दिल्ली-110032
247.	502032	श्री बंसल पंकज, एसीए 20/06/2003 283/236, विष्णु गार्डन, स्ट्रीट नं. 8, एक्स.-1, नई दिल्ली-110018	255.	502472	श्री गुप्ता रमणिक, एसीए 06/10/2003 केमोर्फ सिमेन्ट वर्क्स, पीओ. केमोर, डिस्ट्रिक्ट-जबलपुर, केगोर-483880
248.	502111	श्री साहू तन्मय कुमार, एसीए 24/02/2004 सी/ओ श्री एन.एस. बिष्ट, हाऊस नं 15, गली नं. 7, ईस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	256.	502541	श्री जैन नितिन, एसीए 26/02/2004 डी-40, हरी नगर, क्लोक टॉवर, नई दिल्ली-110064
249.	502207	श्री संजय कुमार, एसीए 06/12/2003 263 तिलक खण्ड, गिरी नगर, कालका जी, दिल्ली-110019	257.	502553	श्री तैवर जितेश राज, एसीए 10/02/2004 डब्ल्यू नेड 402, बसाई दारा पुर, नई दिल्ली-110015
250.	502303	श्री चतुर्वेदी पराह, एसीए 09/02/2004 102 फ्रेंड्स कलोनी (ईस्ट), मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065	258.	502614	श्री सिंह चरनजीत, एसीए 27/02/2004 सी-138, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
251.	502344	श्रीमति यादव अपराजिता, एसीए 03/03/2004 जी-1-41 इन्द्रा एन्कलेव, सेक्टर-21 डी, फरीदाबाद-121001	259.	502689	श्री गौरव, एसीए 15/10/2003 4/2826, ए, गली नं. 2, बिहारी कलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032
			260.	502751	श्री प्रवीन कुमार, एसीए 01/02/2004 397/1 शास्त्री मार्ग, इन्दिरा कलोनी, रोहतक-124001

डॉ. अशोक हल्दिया
सेक्रेटरी

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 27th May 2005

No. U-16/53/(1)2002-Med.II/Col.II (Goa)—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize Dr. P. B. Usgoankar, PTMR to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 17.5.2005 to 16-5-2006 for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Goa to be allocated by State Medical Commissioner, (West Zone) Mumbai for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 8th June 2005

(Chartered Accountants)

3NCA(8)/(2)/2003-2004: In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their name as they do not desire to hold their Certificate of Practice :

S.No.	MRN	Name & Address	Cancel Date	S.No.	MRN	Name & Address	Cancel Date
1	003017	Mr. BANSAL RAM NATH 9 BIRLA FLAT ARYA SAMAJ ROAD KAROL BAGH NEW DELHI-110005	FCA 31/03/2003	9	050012	Mr. KANHAIYA SINGH NATIONAL INSURANCE CO LTD MANAGER CHANDIGARH ROAD II SCO 337-340 SECTOR 35B CHANDIGARH-160035	ACA 01/04/2003
2	003176	Mr. MALIK ARJUN DEV A-22 N D S E PART II NEW DELHI-110049	ACA 18/08/2003	10	052831	Mr. SIPANI JETH MAL PT INDORAMA SYNTHETICS TBK KEMBANG KUNING.UBRUG JETILUHUR PURWAKARTA-0 INDONESIA	FCA 30/01/2004
3	003326	Mr. KHANNA PRITHVI RAJ 70 SUNDER NAGAR NEW DELHI-110003	FCA 08/08/2003	11	070259	Mr. KAPOOR ASHOK KUMAR M-102 GREATER KAILASH PART II NEW DELHI-110048	FCA 03/03/2003
4	005947	Mr. BAJAJ GOPAL KRISHAN F-18 D SAKET NEW DELHI-110017	ACA 01/04/2003	12	072068	Mr. BHUWALKA SITARAM 402 NEW DELHI HOUSE 27 BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI-110 001	FCA 01/05/2002
5	008620	Mr. MATHUR VIJAI NARAIN B-11/11, DLF CITY, PHASE-1 GURGAON-122001	FCA 01/07/2003	13	075485	Mr. BANSAL PUSHPENDRA KUMAR H.NO. 1025, SECTOR-28 FARIDABAD-121003	ACA 01/04/2003
6	009966	Mr. JINDAL OM PARKASH A I/39 PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063	FCA 01/02/2004	14	076026	Mr. NAVAL KISHORE 1207, SECTOR-9, FARIDABAD-122001	FCA 02/02/2004
7	011809	Mr. NAND NITYA SUCHETA BHAVAN, 2ND FLOOR 11-A, VISHNU DIGAMBER MARG NEW DELHI-110002	FCA 05/06/2003	15	078831	Mr. AMIT KUMAR C/O MR T R LAKHANI IFFCO COLONY SECTOR 17-B GURGAON-122003	ACA 23/01/2004
8	017790	Mr. JAIN PRADEEP KUMAR 21 SAMACHAR APARTMENTS MAYUR VIHAR PHASE I EXTN DELHI-110091	FCA 17/06/2003				

16	080581 Mr. ASHOK KUMAR 217 HOUSING BOARD COLONY HIG FLATS URBAN ESTATE PHASE I JALANDHAR-0	FCA 01/06/2003	27	084342 Mr. KHOSLA GAGAN D-1079, NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI-110065	ACA 12/11/2003
17	080748 Mr. GOYAL SUDARSHAN KUMAR SCF 287, MOTOR MARKET MANI MAJRA CHANDIGARH-0	FCA 01/04/2003	28	084563 Mr. TAWAKLEY ANOOP KUMAR 54-A UDAY PARK NEW DELHI-110049	FCA 01/04/2002
18	081586 Mr. PURI ASHWANI KUMAR 28/2, FRIENDS COLONY NEW DELHI-110065	FCA 10/06/2003	29	084644 Mr. MITTAL ANIL B1/446, JANAK PURI NEW DELHI-110058	ACA 15/07/2003
19	081613 Mr. ASHWANI KUMAR 213 ARUNACHAL, 19, BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI-110001	FCA 07/10/2003	30	085010 Mr. NAYYAR RAJ KUMAR B-106 AMAR COLONY LAJPAT NAGAR-IV NEW DELHI-110024	FCA 12/03/2004
20	082516 Mr. SHARMA CHAKKARVARTI 68/75-A GARDEN COLONY JALANDHAR CITY JALANDHAR-0	FCA 27/03/2003	31	085079 Mr. SONI SURINDER KUMAR 31627, OLD YALE ROAD ABBOTSFORD, BC CANADA-V2T 2B4 CANADA	FCA 01/08/2003
21	082572 Mr. KAPOOR DEEPAK P-1 ADITYA VIHAR 30 SAIDULAJAB MEHRAULI BADARPUR ROAD NEW DELHI-110030	FCA 06/06/2003	32	085340 Mr. SAWHNEY SANJEEV B-29 LOWER GROUND LAJPAT NAGAR II NEW DELHI-110024	ACA 01/04/2003
22	083065 Mr. SONA HARINDER KUMAR C-15 ACHARYA NIKETAN MAYUR VIHAR PHASE-I DELHI-110091	FCA 10/09/2003	33	085711 Mr. GARG KUNWAR RAHUL 2431, SECTOR 9 FARIDABAD-0	FCA 05/06/2003
23	083728 Mr. KAPOOR RAJEEV D-35, GROUND FLOOR GALI NO. 2, LAXMI NAGAR DELHI-110092	FCA 01/04/2003	34	085723 Mr. SAXENA ALOK 144, BANK ENCLAVE INDRAPRASTHA EXTENSION DELHI-110092	FCA 10/05/2003
24	083931 Mr. BHASIN ROHIT D-408 DEFENCE COLONY NEW DELHI-110024	ACA 05/06/2003	35	085807 Mr. AGGARWAL KRISHAN CHAND C/O S C AGGARWAL FLAT NO 254, POCKET GH-13, SFS FLATS PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110087	FCA 31/03/2003
25	084134 Mr. MATHARU HARJINDER SINGH A-29 BASEMENT DAYANAND COLONY LAJPAT NAGAR IV NEW DELHI-110 024	FCA 12/12/2003	36	085872 Mr. GUPTA SUNIL KUMAR A-96, MAIN ROAD ROOM NO 106 1ST FLOOR MAIN ROAD WAZIRPUR INDUSTRIAL AREA DELHI-110052	FCA 17/01/2004
26	084316 Mr. MUKHERJEE SHYAMAL P-1 ADITYA VIHAR 30 SAIDULAJAB MEHRAULI BADARPUR ROAD NEW DELHI-110030	FCA 05/06/2003	37	087638 Mr. RAI DEEPAK DEEPAK RAI & ASSOCIATES SECTOR-C POCKET-9 FLAT NO 9670 VASANT KUNJ NEW DELHI-110070	FCA 15/04/2003

38	087659 Mr. JAIN JOY KUMAR J-188, 1ST FLOOR SAKET NEW DELHI-110017	FCA 06/06/2003	50	089480 Mr. GUPTA DINESH DINESH RAM & CO. U-103, SHAKARPUR DELHI-110092	FCA 01/05/2003
39	087858 Mr. NARENDRA KUMAR C/O SHRI R P MARWAH 274 SITE I VIKAS PURI NEW DELHI-110 018	FCA 01/05/2003	51	089664 Mr. BAJAJ SUNIL GH-14/ 897 PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110087	FCA 18/12/2003
40	087905 Mr. BERI SURINOER KUMAR 21 POWER COLONY-2 NEAR SHAKTI VIHAR PATIALA-147001	FCA 01/07/2003	52	089731 GOBHIL NARENDRA DEV B-157, SECTOR-11 FARIDABAO-121006	FCA 28/01/2004
41	088237 Mr. ATUL KUMAR 175-B, NEW COLONY GURGAON-122001	FCA 15/06/2003	53	089754 Mr. TOMAR SWATANTRA KUMAR A-34 EAST KRISHAN NAGAR DELHI-110051	FCA 06/02/2004
42	088312 Mr. GUPTA RAJESH KUMAR 23/27 TILAK NAGAR NEW DELHI-110018	FCA 20/05/2003	54	090054 Mr. CHANDGOTHIA NEEL RATAN PRICE WATER HOUSE SAIOULLAHJAB, OPP.D BLOCK SAKET MEHRAULI BADARPUR ROAD NEW DELHI-110030	FCA 05/06/2003
43	088324 Mr. KANDHARI THAKUR SEN 531 SECTOR 21A FARIDABAD-0	ACA 05/06/2003	55	090207 Mr. MALHOTRA RAKESH A/26/D D.D.A. FLATS MUNIRKA NEW DELHI-110067	ACA 31/03/2003
44	088543 Ms. RIKHY ANITA SECTOR-C POCKET-9 S F S FLAT NO 9170 VASANT KUNJ NEW DELHI-110070	FCA 01/08/2003	56	090439 Mr. GUPTA RAJEEV MGF DEVELOPMENTS LTD MGF HOUSE, 17-B, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110002	FCA 04/06/2003
45	088720 Mr. KAPAHI RAJIV A-294 DEFENCE COLONY NEW DELHI-110024	FCA 30/10/2003	57	090556 Mr. KHANNA YOGESH 1/9232, WEST ROHTAS NAGAR, LANE NO. 6, CLOSED LANE SHAHDARA DELHI-110032	FCA 09/03/2004
46	088741 Mr. PUROHIT GOVARDAN PRASAO 11-A, SUCHETA BHAWAN VISHNU DIGMBER MARG NEW DELHI-110002	FCA 05/06/2003	58	090666 Mr. KHER RAJEEV P O BOX 46309 ABU DHABI-0	ACA 18/12/2003
47	089061 Mr. DAHUJA RANJEEV KUMAR SCO 42, SECTOR 26 MADHYA MARG CHANDIGARH-160019	FCA 13/11/2003	59	091066 Mr. KHANNA SUHIR KUMAR ALAHMADIAN CONTRACTING & TRADING POST BOX NO. 2596 OUBAI-0	FCA 01/09/2003
48	089199 Mr. MALHOTRA VIJAY KUMAR MANOI SATNALI HARYANA MOHINOERGARH-123024	FCA 01/03/2004	60	091227 Mr. GUPTA RAJESH HOUSE NO. 94, SECTOR -16 PANCHKULA-134109	FCA 20/12/2003
49	089421 GUPTA SUNIL KUMAR 103 B RAILWAY HSG. SOCIETY MALA ROAD KOTA(RAJASTHAN)	FCA 10/06/2003			

61	091441 Mr. ARORA YASHPAL H.NO.1113,RANI BAGH DELHI-110034	ACA 13/12/2003	72	092293 Mr. GUPTA CHANDRA SHEKHER NILESH SHEKHER & CO C-9/160, YAMUNA VIHAR DELHI-110053	FCA 31/03/2003
62	091705 Mr.SANDEEP SINGH E-420, GREATER KAILASH - II, NEW DELHI-110048	FCA 01/04/2003	73	092372 Mr. PANDIT ATUL C/O UNITED CAMPAIGNS PUBLICIS HOUSE-16, BUILDING -6, STREET MALAYA DMITROVKA MOSCOW-127006 RUSSIA	ACA 07/11/2003
63	091812 Mr. BAKSHI RAJIV H-16 MASJID MOTH GREATER KAILASH-II NEW DELHI-110048	ACA 22/05/2003	74	092418 Mr. JAIN AJIT 96 PRASAD NAGAR NEW DELHI-110005	FCA 01/06/2003
64	091847 Ms. MAHAJAN JYOTI 73 NEW PRITHVI NAGAR NEAR KISHAN PURA CHOWK JALANDHAR-144001	FCA 30/11/2003	75	092492 Mr. ATTRI RANJEEV H NO 442 PHASE-6 S A S NAGAR MOHALI-160055	ACA 20/05/2003
65	091966 Mr. BANSAL PRAVI 245 BANK ENCLAVE DELHI-110092	FCA 10/07/2003	76	092582 Mr. GUPTA RAJESH SUDESH NIWAS 3, GOLDEN COLONY DEEP NAGAR JALANDHAR CANTT JALANDHAR-144005	ACA 18/08/2003
66	092025 Mr. GUPTA RAJESH RAJESH JAGDISH & ASSOCIATES D-4 GUJARANWALA APARTMENTS J-BLOCK VIKAS PURI NEW DELHI-110018	ACA 14/08/2003	77	092675 Ms. JAIN POORNIMA 3072/6M, STREET NO-10, RANJEET NAGAR NEW DELHI-110008	FCA 27/12/2003
67	092115 Mr. SUNIL KUMAR T-29/L BALJEET NAGAR ROAD NO. 20 NEAR WEST PATEL NAGAR NEW DELHI-110008	ACA 05/06/2003	78	092806 Mr. BUDHIRAJA UMESH KUMAR 112-C LIG DDA FLATS JHILMIL COLONY DELHI-110095	FCA 01/04/2003
68	092161 Mr. MAZUMDAR KUSHAL D-52, IIND FLOOR, UNITECH SOUTH CITY-II GURGAON SOHANA ROAD GURGAON-122101	ACA 01/07/2003	79	092886 Mr. NAVNEET JYOTI 121 MBD MARKET NEAR NAAZ CINEMA JALANDHAR-0	FCA 19/08/2003
69	092196 Mrs. SUMI GURMEET SINGH # HL 76 1ST FLOOR PHASE II SAS NAGAR MOHALI CHANDIGARH-160055	FCA 03/03/2004	80	092942 Mr. GUPTA KRISHAN MOHAN HOUSE NO. 1562 SECTOR -7, EXTN GURGAON-0	FCA 01/07/2003
70	092254 Mr. GUPTA UMESH 517 SECTOR-4 URBAN ESTATE GURGAON-122001	FCA 01/04/2003	81	092949 Mr. JAIN MANOJ KUMAR A-603, ARAVALI HEIGHTS GH-8, SECTOR-21-C-III HARYANA FARIDABAD-121002	FCA 01/04/2003
71	092267 Mr. CHADHA RIVNEET SINGH F-170 1ST FLOOR LAJPAT NAGAR-I NEW DELHI-110024	FCA 26/11/2003			

82	092958 Mr. AGRAWAL MANOJ KUMAR FCA 01/01/2004 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES PVT LTD F 60 MALHOTRA BUILDING IIND FLOOR CONNAUGHT PLACE NEW DELHI-110 001		93	094010 Mr. MADAN RAHUL FCA 01/04/2003 623, PROFESSORS COLONY HARYANA KAITHAL-132027	
83	093075 Ms. JAIN UPASANA FCA 01/04/2003 A-2 JAGAT PURI DELHI-110051		94	094042 Mr. GARG PARVEEN ACA 31/03/2003 F-84 GALI SHITLA MANDIR VISHNU GARDEN NEW DELHI-110018	
84	093077 Ms. GUPTA SARITA ACA 31/03/2003 137, LIG FLATS HASTSAL UTTAM NAGAR NEW DELHI-110059		95	094157 Mr. GUPTA RAJESH ACA 31/03/2003 C-715 VIKAS PURI NEW DELHI-110018	
85	093102 Mr. JAIN RAJESH KUMAR FCA 08/08/2003 KAROR CGHS LTD SECTOR-6, PLOT NO. 39C FLAT NO.A-505, PHASE-I DWARKA NEW DELHI-110045		96	094221 Mr. SINGHAL GIRISH ACA 03/11/2003 C-39 ROHIT KUNJ PITAMPURA P O RANI BAGH DELHI-110034	
86	093372 Mr. RAJ KUMAR ACA 14/08/2003 451 2ND FLOOR KOHAT ENCLAVE PITAM PURA DELHI-110034		97	094231 Mr. KAPOOR RANJEEV FCA 14/05/2003 255, ARUNADAYA APARTMENTS PLOT 15, PH-II, VIKAS PURI NEW DELHI-110018	
87	093416 Mr. GUPTA RITESH ACA 01/05/2003 A-26 HAUZ KHAS NEW DELHI-110016		98	094254 Mr. AMARJEET SINGH ACA 15/05/2003 EA-1/27, INDER PURI NEW DELHI-110012	
88	093630 Mr. SANDEEP ACA 01/04/2003 C/O BHARTI CELLULAR LTD D-183, (BASEMENT) OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE-1 NEW DELHI-110020		99	094516 Mr. AGARWAL SAMEER ACA 01/07/2003 H NO. 3189 SECTOR-40-D CHANDIGARH-0	
89	093639 Mr. MANJINDER SINGH ACA 31/01/2004 WZ-13/2, 1ST FLOOR GALI NO. 18 KRISHNA PARK EXTN TILAK NAGAR NEW DELHI-110018		100	094616 Mr. BAIJAL PANKAJ ACA 12/08/2003 125 MUNIRKA VIHAR NEW DELHI-110067	
90	093802 Mr. VIKAS ACA 17/06/2003 H.NO.3/10 RAILWAY COLONY CHANKYA PURI NEW DELHI-110021		101	094670 Mr. GUPTA SANJAY ACA 31/03/2003 FIRST FLOOR 87 SUNDER NAGAR NEW DELHI-110003	
91	093872 Mr. GUPTA UMESH FCA 18/09/2003 R-119/1, MODEL TOWN-III DELHI-110009		102	094738 Mr. DAVESH NARAIN ACA 29/01/2004 WZ-1128 RANI BAGH SHAKUR BASTI DELHI-110034	
92	093997 Mr. CHOPRA VIVEK FCA 22/04/2003 CD-45, MALIBU TOWNE GURGAON SOHNA ROAD GURGAON-122001		103	094822 Mr. SAMEER RAI FCA 05/05/2003 E-12/5 KRISHAN NAGAR DELHI-110051	
			104	094853 Ms. REKHI RUCHI ACA 20/03/2003 A-21 SUBHAVNA NIKETAN PITAMPURA DELHI-110034	

- | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|---|----------------|
| 105 | 094854 Mr. SHAH MITESH KUMAR
B-9/23 ATAM VALLABH SOCIETY
SECTOR -13 PLOT NO 14
ROHINI
DELHI-110085 | FCA 11/08/2003 | 115 | 095853 Mr. GUPTA PRADEEP KUMAR
4534 DAI WARA
NAI SADAK
ROSHAN PURA
DELHI-110006 | ACA 01/04/2003 |
| 106 | 094856 Mr. HANDA VIKAS
C/O MR. NARINDER SHARMA
HOUSE NO 133
SECTOR-3
NANAK NAGAR, JAMMU
JAMMU TAWI-0 | ACA 01/01/2004 | 116 | 095859 Mr. GUPTA RAJ KUMAR
2668 GALI JATWARA
NAYA BAZAR
DELHI-110006 | FCA 03/02/2004 |
| 107 | 095022 Mr. SANJEEV KUMAR
B-I/2633 MOHALLA GUJRAN WALA
OLD RAJPURA
(PUNJAB)
RAJPURA-140401 | FCA 31/07/2003 | 117 | 095955 Mr PATEL MOHAN PRASAD
A-76, 1ST FLOOR
WEST PATEL NAGAR
NEW DELHI-110008 | ACA 21/07/2003 |
| 108 | 095139 Mr. SURINDER KUMAR
48 INDIRA COLONY
BURIA GATE
(HARYANA)
JAGADHRI-135003 | ACA 01/10/2003 | 118 | 095987 Mr GUPTA SANJAY KUMAR
2800 B/207, VISHRAM NAGAR
TRINAGAR
DELHI-110035 | ACA 01/10/2003 |
| 109 | 095215 Mr. GOEL ANSHUK
M/S MOHSIN HAIDER DARWISH LLC
P O NO. 880, RUWI
MUSCAT-112
SULTANATE OF OMAN | FCA 17/09/2003 | 119 | 096102 Mr VIKAS KUMAR
C/O S LALL & CO
15 ARYA SCHOOL SHOPPING COMPLEX
G T ROAD
PANIPAT-132103 | FCA 01/01/2004 |
| 110 | 095271 Mr. NARENDER KUMAR
RZ-51, MAYA BHAVAN
STREET NO. 2,
MAIN SAGAR PUR
NEW DELHI-110046 | FCA 10/06/2003 | 120 | 096343 Mr AGGARWAL MANISH
KC 45/B PHASE I
ASHOK VIHAR
DELHI-110052 | ACA 01/05/2003 |
| 111 | 095330 RATHI ANUJ FCA
BW-17/B SHALIMAR BAGH
DELHI-110088 | 10/03/2004 | 121 | 096351 Mr RAMAN KUMAR
C/O OM PRAKASH RAVINDER KUMAR
SHIV SHANKAR MARKET
NARWANA JIND
HARYANA
JIND-126116 | ACA 24/12/2003 |
| 112 | 095336 Mr. MALHOTRA VIKRAM
P O BOX 1416, POSTAL CODE 114
JIBROO-0
SULTANATE OF OMAN | FCA 01/02/2004 | 122 | 096376 Mr CHANDEL ANUP
#223, SECTOR-2,
HARYANA
PANCHKULA-134112 | ACA 06/05/2003 |
| 113 | 095543 Mr. GROVER JETENDRA
A-113, REGENCY PART-1
DLF PHASE-IV
HARYANA
GURGAON-122001 | ACA 12/12/2003 | 123 | 096545 Mr BANKA AMITOSH KUMAR
64-B KILOKRI
JANGPURA
NEW DELHI-110014 | FCA 08/02/2004 |
| 114 | 095840 Mr. SANJEEV KUMAR
1260
SECTOR-21
PANCHKULA-0 | ACA 01/09/2003 | 124 | 096570 Mr SINGHAL RAHUL
FLAT NO. 75
HEWO APPARTMENTS
SECTOR-16 A
HARYANA
FARIDABAD-121002 | ACA 27/12/2003 |

125	096731 Mr PRAVEEN KUMAR B-87/1, DILSHAD GARDEN DELHI-110065	ACA 29/03/2003	136	098089 Mr NAUTIYAL SHEKHAR VP-271-B MAURYA ENCLAVE PITAMPURA DELHI-110088	ACA 22/12/2003
126	096802 Mr TRIKHA SANJEEV KUMAR 1513/11, BADSAHAHI BAGH NEAR DISTT. COURTS AMBALA-134003	ACA 29/01/2004	137	098106 Mr. SOOD MANOJ FIRST FLOOR SAPNA BANGLE STORE GANJ BAZAR HIMACHAL PRADESH SOLAN-173212	ACA 17/12/2003
127	096958 Mr SACHDEVA DEEPAK H NO BM 59/2 KILA WALI GALI (PUNJAB) FIROZEPUR CITY FEROZEPUR-152 002	ACA 01/02/2004	138	098207 Mr AGRAWAL VIJAY KUMAR D-361 GALI NO 12 LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 10/08/2003
128	097034 Mr GROVER KAPIL 51/12 VEER BHAWAN CHOWK (HARYANA) PANIPAT-132103	ACA 15/09/2003	139	098340 Mr BHAI RAJAT FINANCE MANAGER BOSTON CONSULTING GROUP(INDIA) PVT LTD 55/56, FREE PRESS HOUSE 215, FREE PRESS JOURNAL MARG, NARIMAN POINT MUMBAI-400021	ACA 23/05/2003
129	097300 Ms SIMAR PREET KAUR 565/2 GHER SODHIAN PATIALA-147001	ACA 23/08/2003	140	098374 Mr QANUNGO VIKRAM C-221 NIRMAL VIHAR VIKAS MARG DELHI-110092	20/05/2003
130	097751 Mr. SHARMA SUNIL 47 GOVIND KHAND JHILMIL COLONY DELHI-110095	ACA 08/07/2003	141	098421 Mr GHANSHYAM H. NO. 14/46, P A U CAMPUS LUDHIANA-141004	ACA 09/02/2004
131	097802 Mr AGGARWAL SAPHIL C-422 NIRMAL VIHAR VIKAS MARG DELHI-110092	ACA 16/02/2004	142	098570 Mr SINGH TRIBHUWAN F-285 PANDAV NAGAR DELHI-110091	ACA 15/11/2003
132	097832 Mr BISTA SANTOSH RAJ 16/53 THAMEL 29 P O BOX 6641 KATHMANDU-0 NEPAL	ACA 30/12/2003	143	098643 Mr HARJIT KUMAR HOUSE NO 31719, NEAR KALRA MEDICOS MAIN ROAD PARAS RAM NAGAR (PUNJAB) BHATINDA-151005	ACA 09/02/2004
133	097924 Mr ARORA MANOJ BJ-31, SHALIMAR BAGH (W) DELHI-110088	ACA 05/03/2003	144	098690 Mr BANSAL NEERAJ KUMAR F-5/18, KRISHNA NAGAR DELHI-110051	ACA 01/07/2003
134	098034 Mr AGARWAL MUKESH KUMAR F-170A, IIND FLOOR LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 27/12/2003	145	098805 Mr MEHROTRA VIVEK D-13/42 SECTOR 7 ROHINI DELHI-110085	ACA 30/07/2003
135	098043 Mr AGARWAL RAJAT C/O SH. AJAI AGARWAL GUPTA MANN & ASSOCIATES G-73 LAXMI NAGAR VIKAS MARG DELHI-110092	ACA 12/12/2002	146	098808 Mr JAIN AMIT B4 A/7 RANA PRATAP BAGH DELHI-110007	ACA 15/12/2003

147	098876 Ms KAUR KIRANJEET H NO. 70 WARD ND.4 BANK STREET DORAHA LUDHIANA-141421	ACA 01/09/2003	158	099412 Mr JAIN PANKAJ KUMAR 7355 GALI TALIYAN PAHARI DHIRAJ DELHI-110006	ACA 03/12/2003
148	098921 Mr. CHOWDHARY ASHISH E-365/366 RAMESH NAGAR NEW DELHI-110015	ACA 15/12/2003	159	099460 Mr GANDHI ROHIT A-84 SHANKAR GARDEN NAJAF GARH ROAD NEW DELHI-110018	ACA 20/10/2003
149	098928 Mr GUPTA DEEPAK KUMAR ASSTT MANAGER/ACCOUNTS IRCON INTERNATIONAL LTD RAILWAY HOLIDAY HOME TULSI BAGH SRINAGAR-0	ACA 28/05/2003	160	099478 Mr. GOEL AMIT A 39 INDERPURI NEW DELHI-110012	ACA 01/05/2003
150	098971 Mr JOSHI DEEPAK 105 POCKET F/17 SECTOR 8 ROHINI DELHI-110085	ACA 09/09/2003	161	099494 Mr MAKHIJA DHEERAJ KUMAR ERNST & YOUNG P O BOX NO 1750, RUVOI - 112 6TH FLOOR, BANK DHOFAR BUILDING MUTTRAH BUSINESS DISTRICT MUSCAT-0 SULTANATE OF OMAN	ACA 14/10/2003
151	099025 Mr. GUPTA MAYANK 99/85 TRILOKYA APARTMENT I P EXTENSION DELHI-110092	ACA 01/07/2003	162	099510 Mr RAJENDER KUMAR 3E/61, NIT FARIDABAD HARYANA FARIDABAD-121001	ACA 01/07/2003
152	099030 Mr GUPTA RAKESH KUMAR POCKET D-14, H NO. 181, SECTOR-7, ROHINI DELHI-110085	ACA 08/10/2003	163	099527 Mr BHASIN RAJAN 32-D CITIZEN ENCLAVE, SECTOR 14 (EXTENSION) ROHINI DELHI-110085	ACA 01/07/2003
153	099051 Mr CHAWLA SURJEET SINGH N-19 DR MUKERJEE NAGAR NEAR BATRA CINEMA DELHI-110009	ACA 03/02/2004	164	099632 Ms MITTU POOJA 18/7, GROUND FLOOR OLD RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060	ACA 25/09/2003
154	099075 Mr GUPTA PRAVEEN KUMAR C-9/4C GALI NO 78 ARJUN MOHALLA MAUJPUR DELHI-110053	ACA 15/02/2004	165	099702 Mr. GADODIA KSHITIZ C-1/210 PRINTERS APARTMENTS PLOT NO 18 SECTOR 13 ROHINI DELHI-110085	ACA 30/09/2003
155	099127 Mr. MITTAL AKLESH 139 TAGORE PARK NEAR MODEL TOWN-I DELHI-110009	ACA 24/12/2003	166	099710 Mr BHAVDEEP SINGH FLAT NO. 8 CHITRAKOOT APARTMENTS EAST ARJUN NAGAR C.B.D. SHAHDARA DELHI-110032	ACA 09/04/2003
156	099279 Mr. SURESH KUMAR 1280, SECTOR 34-C CHANDIGARH-0	ACA 09/02/2004	167	099739 Mr. Jain PANKAJ D-16/220 SECTOR -7 ROHINI DELHI-110085	ACA 04/08/2003
157	099327 Mr VISHRAM H NO. 174 SHAKTI COLONY OPP VILL JANDLI MODEL TOWN AMBALACITY AMBALA-134003	ACA 29/03/2003			

168	099812	Mr KHANDELWAL ABHISHEK FLAT NO 28 C POCKET A DDA SFS FLATS NEW KONDLI MAYUR VIHAR PHASE III DELHI-110096	ACA 01/09/2003	177	500074	Mr SURESH KUMAR C/O MR. VIJAY MEHLA VILLAGE & P O MOHANA DISTT. SONEPAT SONEPAT-131025	ACA 01/11/2003
169	099823	Mr. JAIN ANSHUL 1159, 2ND FLOOR, KUCHA MAHAJANI CHANDNI CHOWK DELHI-110006	ACA 27/02/2004	178	500082	Mr. SIDDHARTH LAL 12, ISHWAR NAGAR NEW DELHI-110065	ACA 31/03/2003
170	099909	M. KALRA AJAY C/O KANIKA CHADHA 27 HANUMAN ROAD NEW DELHI-110001	ACA 20/03/2003	179	500089	Mr. GUPTA MANISH 1699/4 GOVINDPURI, EXTN KALKAJI NEW DELHI-110019	ACA 01/04/2003
171	099942	Mr. GUPTA ARUN KUMAR C-1346, 27, FEET ROAD, DABUA COLONY, NIT FARIDABAD FARIDABAD-121001	ACA 01/05/2003	180	500097	Mr KHAN ASLAM D-400/4, JAIPUR EXTN. - II OPP. JAMA MASJID, NEW DELHI-110044	ACA 23/07/2003
172	099957	Mr PANWAR KAMAL SINGH NEAR SARASWATI VIDYA MANDIR HIGH SCHOOL HARDYAL NAGAR, BLOKE ROAD HAIBOWAL KALAN, P O SALIM TABRI LUDHIANA-141008	ACA 06/08/2003	181	500111	Ms. JAIN RUCHIKA A-604 VARDHMAN APTS MAYUR VIHAR-I EXTN DELHI-110091	ACA 01/04/2003
173	400430	Mr RAO RAJESH SR ACCOUNTANT, F & A DEPTT DULHASTI HE PROJECT(NHPC) CHENAB NAGAR SECTOR. II KISTWAR, DISTT, DODA JAMMU TAWI-182206	ACA 03/04/2002	182	500120	Ms. SETH EKTA C-53 DEFENCE COLONY NEW DELHI-110024	ACA 15/09/2003
174	400981	Mr. SINGH TARAN JEET C/O J B SINGH 60 SFS FLATS SHAKTI APPARTMENTS ASHOK VIHAR PHASE-III DELHI-110052	ACA 26/03/2003	183	500128	Mr NIJHAWAN LOVELEEN HOUSE NO. 3165 SECTOR 21-D CHANDIGARH-0	ACA 29/12/2003
175	401908	Mr GUPTA ROHIT KUMAR A-98, NEHRU VIHAR COLONY KALYANPUR LUCKNOW-226022	ACA 01/04/2003	184	500131	Ms. GUPTA PAYAL 113A, DDA FLATS MANSAROVAR PARK SHAHNARA DELHI-110032	ACA 05/05/2003
176	500026	Mr AGRAWAL RAMAN 186 INDUSTRIAL AREA PHASE-2 RAM DARBAR CHANDIGARH-0	ACA 15/02/2004	185	500199	Mr. JINDAL AJAY KUMAR S/O PRAKASH CHAND JINDAL TAGORE STREET NEAR S D M RESIDENCE MANSA-151505	ACA 20/06/2003
				186	500203	Mr. KATARUKA RAJNISH KUMAR JAO CASH (TRANSMISSION) MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD EAST WING, 5TH FLOOR, TELEPHONE HOUSE V S ROAD, DADAR (W) MUMBAI-400028	ACA 09/03/2004
				187	500211	Mr KHAN NASIR IQBAL 232/5, GHAFAR MANZIL JAMIA NAGAR NEW DELHI-110025	ACA 02/12/2003

186	500221 Mr JITENDER KUMAR H NO.36-A NANDWANI NAGAR SONEPAT-131001	ACA 01/05/2003	200	500680 Mr SHARMA RANJAN KUMAR 11, GEETA COLONY HARYANA SONEPAT-0	ACA 20/03/2003
189	500270 Mr. GOEL VAIBHAV 37 SAHYOG APPTS SANT NAGAR PITAM PURA DELHI-110034	ACA 28/01/2004	201	500687 Ms. SUPREET KAUR H NO 644/5 FACTORY AREA PATIALA-147003	ACA 25/03/2003
190	500289 Mr. JAIN AMIT 1A/31.A ASHOK VIHAR PHASE I DELHI-110052	ACA 28/01/2004	202	500748 Mr. WADHWA SACHIN 349 SECTOR - 4 R K PURAM NEW DELHI-110022	ACA 31/03/2003
191	500299 Mr V SANTOSH B-61 H P L STAFF COLONY JANGPURA NEW DELHI-110014	ACA 17/03/2003	203	500767 Mr. KUKREJA SACHIN IBM GLOBAL SERVICES INDIA P LTD EXPLORER BUILDING, 4TH FLOOR ITPL, WHITE FIELD ROAD BANGALORE-560066	ACA 25/11/2002
192	500312 Mr PURDHANI VIKAS 5 KARAN NAGAR JAMMU TAWI-180005	ACA 13/12/2003	204	500778 Mr. GUPTA SHIV KUMAR KZ 85 B KAJ NAGAR II PALAM COLONY NEW DELHI-110 045	ACA 01/12/2003
193	500348 Mr. BHARAT LAXMI NIWAS 5/554 INDIRA COLONY SONEPAT-131001	ACA 09/02/2004	205	500787 Mr SINGH GOPAL V P O KOTHI ITH GHUMARWIN DISTT BILASPUR BILASPUR (HP)-174 021	ACA 15/12/2003
194	500396 Mr. ARORA SANDEEP G-57, 2ND FLOOR, VIKAS PURI NEW DELHI-110018	ACA 09/09/2003	206	500800 Mr JAIN GAGAN 69 VEER NAGAR JAIN COLONY NEAR GURMANDI DELHI-110007	ACA 31/03/2003
195	500451 Mr. GOYAL SANJEEV 1485 STREET NO. 2 NAI BASTI BHATINDA-151001	ACA 09/02/2004	207	500886 Ms. BUDHIRAJA JYOTI 26/96, IIND FLOOR WEST PATEL NAGAR NEW DELHI-110008	ACA 31/03/2003
196	500456 Mr. MITTAL AMIT 799, SECTOR 2 PANCHKULA-134109	ACA 08/02/2004	208	500904 Ms. DEWAN SUNIDHI L-12 KIRTI NAGAR NEW DELHI-110015	ACA 01/03/2003
197	500539 Mr SHARMA GOPAL 8-F POCKET-I PHASE-I MAYUR VIHAR DELHI-110091	ACA 04/03/2004	209	500926 Ms HARIHARAN SUDHA D II/2245 VASANT KUNJ NEW DELHI-110070	ACA 01/03/2003
198	500567 Ms. SHARMA DEEPA 34 VIJAY BLOCK LAXMI NAGAR STREET NO 3, DELHI-110092	ACA 24/06/2003	210	500957 Ms. PODDAR SONIA 46/2 1ST FLOOR BRINDAVAN HOTEL COMPLEX 4TH CROSS, 2ND MAIN SAMPIGE ROAD MALLESHWARAM BANGALORE-560 003	ACA 31/03/2003
199	500625 Mr NARANG VAIBHAV H-92 DD A FLATS NARAINA VIHAR NEW DELHI-110028	ACA 15/04/2003			

211	500997 Mr. KHURANA RIJU DAMAN F/23 WEST PATEL NAGAR NEW DELHI-110008	ACA 21/04/2003	223	501325 Mr. KHARBANDA JASPREET SINGH C 196/1 MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PH 2 NEW DELHI-110028	ACA 30/12/2003
212	501029 Mr AGEET KUMAR B -20 2ND FLOOR DILSHAD COLONY DELHI-110095	ACA 28/12/2002	224	501341 Mr. SURI CHETAN C-336 VIVEK VIHAR DELHI-110095	ACA 10/09/2003
213	501036 Ms. BAHRI MONICA H NO 1110 SECTOR 11 PANCHKULA-134112	ACA 29/11/2002	225	501408 Mr. GARG SACHIN 591-A, MODEL TOWN PANIPAT-132103	ACA 12/02/2004
214	501093 Mr. HITESH KUMAR 27 POWER COLDNY 2 PATIALA-147001	ACA 24/04/2003	226	501539 Mr. PANKAJ KUMAR PREET COLDNY BEHIND NEW BUS STAND BHAWANIGARH DIST SANGRUR SANGRUR-148026	ACA 03/11/2003
215	501117 Mr. GHAI AMIT H NO 35 STREET NO 26 JALANDHAR CANTT JALANDHAR-144005	ACA 30/03/2003	227	501542 Mr. GUPTA SUSHEEL FLAT NO. 9 SAMAJ KALYAN APTS F BLOCK VIKAS PURI NEW DELHI-110018	ACA 11/12/2003
216	501142 Mr. AGGARWAL RAMAN # 2586 SECTOR 15 PANCHKULA-134113	ACA 03/06/2003	228	501552 Ms. ANAND SONAL THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA I P, MARG NEW DELHI-110002	ACA 31/03/2003
217	501143 Mr. AGGARWAL NITIN F-78, PRASHANT VIHAR DELHI-110085	ACA 31/03/2003	229	501599 Mr. GOYAL VIJAY 9.A M C COLONY HISAR-125005	ACA 03/09/2003
218	501156 Ms. GUPTA GARIMA A-201 2ND FLOOR LAJPATNAGAR-I NEW DELHI-110024	ACA 28/03/2003	230	501600 Ms GUPTA ASHIMA C/O MR. S K GUPTA 7, DHILLON COLONY PUNJAB PATIALA-147001	ACA 09/02/2004
219	501157 Mr CHAUDHARY RAMESH K BHARAT SANCHAR NIGAM LTD SCO 56-57, SEDCTOR 17A SECTOR-34A, CHANDIGARH-0	ACA 09/02/2004	231	501638 Ms MEHTA SUVIDHA 293 DILBAGH NAGAR JALANDHAR CITY JALANDHAR-144002	ACA 22/03/2003
220	501179 Mr. GUPTA VINEET HOUSE NO.332 SECTOR 37 FARIDABAD-121003	ACA 29/01/2004	232	501648 Mr. AGGARWAL ANUJ B-2/202 YAMUNA VIHAR DELHI-110053	ACA 01/10/2003
221	501233 Mr. SURI SANDEEP 614 RISHI NAGAR SHAKUR BASTI DELHI-110034	ACA 13/02/2004	233	501671 Mr. AGGARWAL DHIRAJ 3 C/43 GROUND FLOOR NEW ROHTAK ROAD NEW DELHI-110005	ACA 15/07/2003
222	501238 Mr. MANCHANDA KAPIL NP 153/A PITAM PURA DELHI-110088	ACA 28/01/2004			

234	501718 Mr. GUPTA VARUN HOUSE NO. 51 SECTOR-11 PANCHKULA-134112	ACA 01/04/2003	245	501941 Mr JAIN ANURAG FLAT NO.1076, POCKET G.H-13, PASCHIM VIHAR, NEW DELHI-110087	ACA 23/06/2003
235	501720 Mr. SARPAL RAJEEV KUMAR Q NO 240 DELHI ADMIN FLATS ASHOK VIHAR PHASE IV DELHI-110052	ACA 14/07/2003	246	501963 Mr DEV KANT 332/16, PREM NAGAR HARYANA HISAR-125001	ACA 13/02/2004
236	501755 Mr SINGH RAKESH KUMAR U-17A SHAKARPUR DELHI-110092	ACA 01/07/2003	247	502032 Mr BANSAL PANKAJ # 283/236, VISHNU GARDEN STREET NO. 8, EXT.NO.1 NEW DELHI-110018	ACA 20/06/2003
237	501760 Mr. BHATNAGAR ANUPAM SWARUP D-437, MOTI BAGH-I NEW DELHI-110021	ACA 16/07/2003	248	502111 Mr. SAHOO TANMAY KUMAR C/O MR N S BIST HOUSE NO. 15 GALI NO.7 EAST GURU ANGAD NAGAR LAXMI NAGAR DELHI-110092	ACA 24/02/2004
238	501767 Mr KRISHNAMURTHY K H NO 431 SECTOR 16 FARIDABAD-121002	ACA 27/10/2003	249	502207 Mr. SANJAY KUMAR 263 TILAK KHAND GIRI NAGAR KALKAJI NEW DELHI-110019	ACA 06/12/2003
239	501819 Mr. GUPTA SAURABH WZ-48 STREET NO. 1 SADH NAGAR PALAM ENCLAVE NEW DELHI-110045	ACA 28/11/2003	250	502303 Mr. CHATURVEDI PARAG 102 FRIENDS COLONY [EAST] MATHURA ROAD NEW DELHI-110065	ACA 09/02/2004
240	501825 Mr. PORWAL AMIT C-119 NIRMAN NAGAR KINGS ROAD SHYAM NAGAR JANPATH JAIPUR-0	ACA 09/02/2004	251	502344 Ms YADAV APARAJITA G 1-41 INDRA ENCLAVE SECTOR 21 D FARIDABAD-121001	ACA 03/03/2004
241	501844 Mr AGGARWAL RAJESH KUMAR H.NO 4091 1ST FLOOR SECTOR 46-D CHANDIGARH-160047	ACA 01/09/2003	252	502435 Ms. GUPTA PARUL 737 SECTOR A POCKET C VASANT KUNJ NEW DELHI-110070	ACA 03/03/2004
242	501850 Ms. CHHIBBER MOHITA B-129, 1ST FLOOR NIRMAN VIHAR DELHI-110092	ACA 22/11/2002	253	502444 Mr. GARG SACHIN A-17, TYPE-VI THERMAL COLONY BATHINDA-151002	ACA 10/11/2003
243	501861 Mr. SONI VISHNU KUMAR C/O MR LAXMI NARAIN SONI SHOP NO. 17 NEHRU MARKET GURUDWARA CHULLA SAHIB KOTKAPURA-151204	ACA 03/11/2003	254	502459 Mr. JAIN PIYUSH 7/391 FARSH BAZAR SHAH DARA DELHI-110032	ACA 01/10/2003
244	501866 Mr SINGH RAM TIRATH 14575-82 AVENUE P.B.V 3 S-9J 3 SURREY B C-0 CANADA	ACA 23/01/2004	255	502472 Mr. GUPTA RAMNIK KYMORE CEMENT WORKS P O KYMORE DISTT. JABALPUR KYMORE-483880	ACA 06/10/2003

256	502541 Mr. JAIN NITIN D-40, HARI NAGAR CLOCK TOWER NEW DELHI-110064	ACA 26/02/2004	259	502689 Mr. GAURAV 4/2826.A GALI NO 2 BIHARI COLONY SHAHNARA DELHI-110032	ACA 15/10/2003
257	502553 Mr. TANWAR JITESH RAJ. WZ 402 BASAI DARA PUR NEW DELHI-110015	ACA 10/02/2004	260	502751 Mr. PARVEEN KUMAR 397/1 SHASTRI MARG INDIRA COLONY ROHTAK-124001	ACA 01/02/2004
258	502614 Mr. CHARAN JEET SINGH C-138, MANSAROVER GARDEN NEW DELHI-110015	ACA 27/02/2004			

Dr. ASHOK HALDIA
Secy.